



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 384 राँची, मंगलवार

12 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

2 जून, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

29 मई, 2015

संख्या- 4/न.वि./गठन/136/2014-..1960(अनु0)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत मौजा-कपाली (कपाली उ.प., कपाली उ.प., कपाली द.प., कपाली द.प.) कुल चार पंचायत एवं मौजा-तामूलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या-47048 होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (नगर परिषद् वर्ग 'ख') के रूप में घोषित करने संबंधी "प्रारूप आदेश" निर्गत करना चाहते हैं ।

इससे प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन में 30 (तीस) दिनों के अंदर कपाली नगर परिषद् वर्ग 'ख' के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव, उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं ।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-2 के अधीन उपायुक्त, सरायकेला-खरसाँवा द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत मौजा-कपाली (कपाली उ.प., कपाली उ.प., कपाली द.प., कपाली द.प.) एवं मौजा-तामूलिया को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (नगर परिषद् वर्ग 'ख') के रूप में घोषित करते

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक-1

कपाली नगर पंचायत का गठन

अनुमंडल पदाधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक-743, दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित कपाली नगर पंचायत में समाहित होनेवाले मौजा / पंचायतों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत है:-

क्र.	मौजा का नाम	थाना संख्या	पंचायत	क्षेत्रफल	जनसंख्या	
				वर्ग कि.मी.	वर्ष 2011 के अनुसार	घनत्व
1	कपाली	332	कपाली (उत्तर-पश्चिम)	6.742	43256	6415.9
			कपाली (उत्तर-पूरब)			

			कपाली (दक्षिण-पश्चिम)			
			कपाली (दक्षिण-पूरब)			
2	तामुलिया	333		2.790	3792	1359.139
कुल योग:-				9.532	47048	4935.795

(ह०/-) अस्पष्ट,
सचिव,
नगर विकास विभाग ।
